



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 13 अक्टूबर, 2020
आश्विन 21, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 29/2020/1568/सात-न्याय-2-2020-58जी-2001
लखनऊ, 13 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-257

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सहमति से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित कुटुम्ब न्यायालय में अपर प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करती हैं।

अनुसूची

क्रमांक	जिला का नाम	अधिकारी का नाम और उनका वर्तमान पदनाम	यथा प्रस्तावित
1	2	3	4
1	बहराइच	1-श्रीमती पूनम पाठक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
2	बाराबंकी	1-श्रीमती एकता वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
		2-श्रीमती शुभी गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
3	बुलन्दशहर	1-सुश्री श्वेता वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश

1	2	3	4
4	इटवा	1. श्रीमती रेनु सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
5	फिरोजाबाद	1. श्रीमती नीलंजना, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
6	गाजियाबाद	1. सुश्री छवी अस्थाना, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
		2. श्रीमती अर्चना रानी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
7	जौनपुर	1. सुश्री एकता कुशवाहा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
8	कानपुर नगर	1. श्रीमती विजय राजे सिसोदिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
9	मुरादाबाद	1. श्रीमती रूपाली सक्सेना, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
10	सहारनपुर	1. श्रीमती मनोरमा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
11	सुल्तानपुर	1. श्रीमती पुष्पा सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
12	उन्नाव	1. श्रीमती दिव्या भार्गव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
13	सन्तकबीरनगर	1. श्री राजेश कुमार-V, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 29/2020/1568/VII-Nyay-2-2020-58G-2001, dated October 13, 2020:

No. 29/2020/1568/VII-Nyay-2-2020-58G-2001
Dated Lucknow, October 13, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) the Governor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to appoint the Additional District and Sessions Judge mentioned in Column-3 of the Schedule below as the Principal Judge of the Family Court mentioned against each in Column-4 of the said Schedule with effect from the date of their taking over charge of their respective office.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of the officer and their present designation	Proposed as
1	2	3	4
1	Baharich	1. Smt. Poonam Pathak, ADJ	Additional Principal Judge
2	Barabanki	1. Smt. Ekta Verma, ADJ	Additional Principal Judge
		2. Smt. Shubhi Gupta, ADJ	Additional Principal Judge
3	Bulandshahar	1. Ms. Sweta Verma, ADJ	Additional Principal Judge
4	Etawah	1. Smt. Renu Singh, ADJ	Additional Principal Judge

1	2	3	4
5	Firozabad	1. Smt. Neelanjana, ADJ	Additional Principal Judge
6	Ghaziabad	1. Sushri Chhavi Asthana, ADJ	Additional Principal Judge
		2. Smt. Archana Rani, ADJ	Additional Principal Judge
7	Jaunpur	1. Sushri Ekta Kushwaha, ADJ	Additional Principal Judge
8	Kanpur Nagar	1. Smt. Vijay Raje Sisodia, ADJ	Additional Principal Judge
9	Moradabad	1. Smt. Roopali Saxena, ADJ	Additional Principal Judge
10	Saharanpur	1. Smt. Manorama, ADJ	Additional Principal Judge
11	Sultanpur	1. Smt. Pushpa Singh, ADJ	Additional Principal Judge
12	Unnao	1. Smt. Divya Bhargava, ADJ	Additional Principal Judge
13	Sant Kabir Nagar	1. Sri. Rajesh Kumar-V, ADJ	Additional Principal Judge

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.